



28 नवम्बर 2022

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का एफडीआई प्रवाह 9% घटकर 38.9 अरब डॉलर रह गया।
- भारत में कोविड प्रकोप के बावजूद 2021-22 में रिकॉर्ड 83.57 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है।
- रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुसार अक्टूबर में रत्न और आभूषण निर्यात 14.64 प्रतिशत घटकर 25,843.84 करोड़ रुपये का रह गया।
- अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान के अनुसार अक्टूबर में वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन सालाना आधार पर 3.1% बढ़कर 5.85 मिलियन टन हो गया।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत लाभार्थियों की संख्या फरवरी 2019 में योजना की शुरुआत के 31 मिलियन से

बढ़कर 100 मिलियन को पार कर गई है।

- भारत ने 1-15 नवंबर के दौरान 720 मिलियन डॉलर मूल्य के रूसी कच्चे तेल का आयात किया।
- कोयला मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के भंडार को रखने की योजना बना रहा है ताकि मार्च 2023 के अंत तक भंडार 45 मिलियन टन तक पहुंच जाए।
- अक्टूबर 2022 में भारत से चीन को इंजीनियरिंग सामान का निर्यात साल-दर-साल 64 प्रतिशत कम हो गया, जबकि यूरोपीय संघ को निर्यात में 23 प्रतिशत की गिरावट हुई है।
- नासिक जिले के डिंडोरी में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ भारत की पहली निजी कृषि मंडी तैयार की गई है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	18.11.22	24.11.22	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2679.00	2797.00	4.40%
जौ	3168.00	3227.50	1.88%
कपास	1709.00	1719.50	0.61%
मक्का	2200.00	2211.00	0.50%
स्टील	42800.00	42980.00	0.42%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	18.11.22	24.11.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	512.80	587.50	14.57%
कॉटन	32240.00	33170.00	2.88%
सोना गिनी	42422.00	42830.00	0.96%
सोना	52588.00	52671.00	0.16%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	18.11.22	24.11.22	बदलाव (%)
सीसेम सीड	17200.00	15405.00	-10.44%
धनिया	10886.00	10034.00	-7.83%
ग्वारसीड	6029.00	5856.00	-2.87%
हल्दी	7558.00	7358.00	-2.65%
ग्वारगम	12437.00	12192.00	-1.97%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	18.11.22	24.11.22	बदलाव (%)
निकल	2262.50	2186.00	-3.38%
एल्युमीनियम	209.15	204.25	-2.34%
सोना पेटल	5226.00	5165.00	-1.17%
मेंथा ऑयल	955.80	945.70	-1.06%
लेड	184.2	182.6	-0.87%

## साप्ताहिक समीक्षा

सीआरबी इंडेक्स काफी कम दायरे में कारोबार करता रहा। फेडरल रिजर्व की नवीनतम बैठक के मिनट के बाद भविष्य में दरों में वृद्धि की गति धीमी करने के संकेत पर डॉलर इंडेक्स कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस महीने की शुरुआत में फेड ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के प्रयास में अपनी प्रमुख दर में लगातार चौथी बार तीन-चौथाई प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, लेकिन मिनट ने मोटे तौर पर दिसंबर की शुरुआत में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की उम्मीदों को पुख्ता कर दिया। सोने की कीमतों को कमजोर डॉलर से फायदा हुआ क्योंकि फेडरल रिजर्व की नवीनतम बैठक के मिनटों से पता चला कि अधिकतम सदस्यों ने ब्याज दरों में वृद्धि की धीमी गति का समर्थन किया। चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। औद्योगिक धातुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई, क्योंकि प्रमुख आयातक चीन में मांग धीमी होने से कीमतों पर दबाव पड़ रहा था। डॉलर में कमजोरी के कारण तांबे की कीमतों को मदद मिली। चीन में सबसे खराब कोविड-19 प्रकोप को लेकर चिंता ने तांबे के लिए व्यापक मांग को कम कर दिया। चीन ने इस महीने कई प्रमुख शहरों में नए प्रतिबंध लगाए, क्योंकि इन शहरों में प्रतिदिन संक्रमणों में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। सप्ताह के बाद के दिनों में बेस मेटल की कीमतों में गिरावट देखी गई। ऊर्जा काउंटर में, कच्चे तेल की कीमतें लुढ़क गईं जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि यूरोपीय आयोग ने कीमतों पर आपातकालीन ब्रेक लगाने का प्रस्ताव दिया क्योंकि रूस ने यूक्रेन के रास्ते से भेजे जाने वाले गैस प्रवाह में अधिक कटौती करने की धमकी दी। रूसी आपूर्ति पर चिंताओं को कम करने और बिगड़ते आर्थिक दृष्टिकोण के बाद तेल की कीमतें गुरुवार को दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं। लेकिन फेडरल रिजर्व के लचीले संकेतों पर डॉलर में कमजोरी के कारण बिकवाली के दबाव को कुछ कम करने में मदद मिली। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) ने कहा कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अनुमान से अधिक गिरावट हुई। 18 नवंबर को समाप्त सप्ताह में कच्चे तेल का भंडार 3.7 मिलियन बैरल गिरकर 431.7 मिलियन बैरल रह गया, जबकि रॉयटर्स पोल में 1.1 मिलियन-बैरल की गिरावट का अनुमान था। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को कहा कि स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अमेरिकी कच्चे तेल का स्टॉक नवीनतम सप्ताह में 1.6 मिलियन बैरल गिरकर 390.5 मिलियन बैरल हो गया, जो मार्च 1984 के बाद का सबसे कम है।

कृषि में, ग्वार समूह ने दोनों तरफ अपनी तेज चाल से सबसे अधिक आकर्षित किया। महीनों के बाद ग्वारसीड 6000 के स्तर को पार कर गया, जबकि ग्वारगम 13000 के स्तर को पार कर गया। बाद में राजस्थान में उच्च उत्पादन की खबरों के बीच उच्च स्तर से मुनाफावसूली हुई। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 14 लाख टन ग्वार सीड उत्पादन का अनुमान लगाया है जो उद्योग के 7-8 लाख टन के अनुमान से बहुत अधिक है। तीन सप्ताह की जोरदार तेजी के बाद, कमजोर घरेलू मांग के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी थम गई। मसाला उद्योग की ओर से सुस्त खरीददारी के कारण मसाले की कीमतों में गिरावट हुई। धनिया की कीमतों में गिरावट हुई है क्योंकि मौसम अनुकूल होने के कारण अब तक बुवाई की प्रगति सामान्य रही है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने के कारण कुल रकबे में सुधार की उम्मीद है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	18.11.22	24.11.22	(%)
जौ	जयपुर	3189.90	3212.80	0.72%
चना	दिल्ली	4919.60	5100.90	3.69%
धनिया	कोटा	10625.40	10068.50	-5.24%
कूड पॉम ऑयल	कांडला	851.15	882.45	3.68%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1164.00	1160.00	-0.34%
ग्वारसीड	जोधपुर	6075.00	5946.00	-2.12%
ग्वारगम	जोधपुर	12719.00	12428.00	-2.29%
जीरा	ऊंझा	24313.70	24227.40	-0.35%
सरसों	जयपुर	6887.10	6955.80	1.00%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1335.00	1347.50	0.94%
सोयाबीन	इंदौर	5627.25	5653.10	0.46%
हल्दी	निजामाबाद	7514.00	7473.10	-0.54%
गेहूं	दिल्ली	2854.75	2890.25	1.24%
कॉटन	कड़ी	32747.45	32160.50	-1.79%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3184.25	3120.75	-1.99%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	18.11.22	24.11.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2430.00	2367.50	-2.57%
तांबा	LME	नकद	8076.00	8041.00	-0.43%
लेड	LME	नकद	2154.00	2130.00	-1.11%
निकल	LME	नकद	25385.00	26100.00	2.82%
जिंक	LME	नकद	3031.00	2918.00	-3.73%
सोना	COMEX	दिसम्बर	1754.40	1745.60	-0.50%
चांदी	COMEX	दिसम्बर	21.00	21.37	1.76%
लाइट कूड	NYMEX	नवम्बर	80.08	77.94	-2.67%
नेचुरल गैस	NYMEX	नवम्बर	6.30	7.31	16.03%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	18.11.22	24.11.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जनवरी	14.28	14.30	0.14%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	72.74	73.84	1.51%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	85.16	83.22	-2.28%
सीपीओ	BMD	फरवरी	3,850.00	4,040.00	4.94%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	17.11.22 क्वांटिटी	24.11.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	2173	881	-1292
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	10022	10782	760
धनिया	मी.टन	1349	1870	521
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	0	0	0
ग्वारगम	मी.टन	10783	11135	352
ग्वारसीड	मी.टन	15864	12316	-3548
जीरा	मी.टन	2296	2617	321
मक्का	मी.टन	50	204	154
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	798	768	-30

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	18.11.22 क्वांटिटी	23.11.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3528	3680	152
तांबा	मी.टन	3929300	3899737	-29563
सोना	किग्रा	655	691	36
सोना मिनी	किग्रा	13560	13560	0
सोना गिनी	किग्रा	160800	159200	-1600
लेड	किग्रा	413	413	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	156465	155749	-716
चांदी एम	किग्रा	36139	36139	0
जिंक	मी.टन	2249	2082	-167

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 18.11.22	स्टॉक की स्थिति 24.11.22	अंतर
एल्युमीनियम	528250	513275	-14975.00
तांबा	89925	91525	1600.00
निकल	49500	50778	1278.00
लेड	30025	27575	-2450.00
जिंक	42750	41975	-775.00



## ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कटिक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	दिसम्बर	24075.00	23.11.22	मंदी	24400.00	-	24550.00	24600.00
NCDEX	हल्दी	दिसम्बर	7358.00	22.11.22	मंदी	7400.00	-	7850.00	7900.00
NCDEX	ग्वारसीड	दिसम्बर	5856.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5400.00	-	5350.00
NCDEX	कैस्टरसीड	दिसम्बर	7434.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7230.00	-	7200.00
NCDEX	स्टील लांग	दिसम्बर	42980.00	25.08.2022	मंदी	50200.00	-	44400.00	44500.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	दिसम्बर	2797.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2630.00	-	2600.00
MCX	कॉटन	दिसम्बर	31660.00	10.11.22	तेजी	33140.00	30900.00	-	30800.00
MCX	मेंथा ऑयल	दिसम्बर	957.30	23.05.22	मंदी	1080.00	-	995.00	1000.00
MCX	बुलडेक्स	फरवरी	14693.00	10.11.22	तेजी	14545.00	14330.00	-	14300.00
MCX	चांदी	मार्च	63435.00	10.11.22	तेजी	61911.00	59600.00	-	59500.00
MCX	सोना	दिसम्बर	53145.00	10.11.22	तेजी	52109.00	52100.00	-	52000.00
MCX	मेटलडेक्स	दिसम्बर	17195.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	16500.00	18500.00	-
MCX	तांबा	दिसम्बर	677.30	29.08.22	मंदी	670.00	-	708.00	710.00
MCX	लेड	दिसम्बर	184.15	16.11.22	मंदी	186.00	-	187.50	188.00
MCX	जिंक	दिसम्बर	262.80	29.08.22	मंदी	312.00	-	283.00	285.00
MCX	एल्युमिनियम	दिसम्बर	207.10	29.08.22	मंदी	210.00	-	216.00	217.00
MCX	कच्चा तेल	दिसम्बर	6420.00	14.11.22	मंदी	7250.00	-	6950.00	7000.00
MCX	नेचुरल गैस	दिसम्बर	621.40	22.11.22	तेजी	610.00	555.00	-	550.00

\*24/11/2022 का बंद भाव

नाट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना के ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### सोना ( फरवरी ) एमसीएक्स



### सोना ( फरवरी ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 53700

निचला स्तर: 50270

एमसीएक्स में सोना(फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 24 नवम्बर 2022 को 53145.00 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 52492.19 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 61.196 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

53700.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 51800.00 रूप के टारगेट के लिए 53100.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### जीरा ( दिसम्बर ) एनसीडीईएक्स



### जीरा ( दिसम्बर ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 25700

निचला स्तर: 23420

एनसीडीईएक्स में जीरा (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 24 नवम्बर 2022 को 23960.00 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 24438.44 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 34.267 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

24150.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 22600.00 रूप के टारगेट के लिए 23650.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### लेड ( दिसम्बर ) एमसीएक्स



### लेड ( दिसम्बर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 187.90

निचला स्तर: 177.95

एमसीएक्स में लेड (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 24 नवम्बर 2022 को 184.15 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 185.62 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 58.306 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

191.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 176.00 रूप के टारगेट के लिए 186.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

फसल की सामान्य वृद्धि की रिपोर्ट के बाद पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में मिलाजुला कारोबार हुआ। मसाला बनाने वाली कंपनियों की ओर से कमजोर खरीददारी से बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ। मसाला निर्माता खरीदारी से परहेज कर रहे हैं क्योंकि अधिकांश मसाला मिलों ने कम कीमतों पर अपनी निकट भविष्य की मांग को पूरा कर लिया है। पूरे भारत में नवंबर 22 में लगभग 9 हजार टन हल्दी की आवक हुई है जबकि पिछले साल नवंबर 21 में 10 हजार टन की आवक हुई थी। बाजार का प्रमुख ध्यान हल्दी की फसल की प्रगति पर चला गया है जो अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण संतोषजनक दिख रहा है। लेकिन उपज के नुकसान को लेकर चिंता के बीच कम रकबे के कारण कुल उत्पादन कम होने का अनुमान है। मौजूदा स्तर पर निर्यात पृष्ठताछ अच्छी है जिससे कीमतों में तेजी को मदद मिलेगी। अगस्त 22 में हल्दी के निर्यात में साल-दर-साल 5% की वृद्धि हुई और वर्ष 2022 में अब तक 15% की वृद्धि हुई। कीमतों को 7200 पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में 7900 की ओर बढ़ने की उम्मीद है। हल्दी वायदा (दिसंबर) की कीमतों को 7000 पर समर्थन रहने की संभावना है और 7600 के स्तर पर रेजिस्टेंस रह सकता है।

उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण जीरा (दिसंबर) वायदा की कीमतों में पिछले सप्ताह गिरावट जारी रही। स्थानीय बाजारों में कमजोर खरीददारी के कारण जीरा में नरमी बरकरार रहने की संभावना है। फसल प्रगति की रिपोर्ट का भी बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ेगा क्योंकि उत्तरी और मध्य राज्यों में तापमान में गिरावट से जीरा की फसल की वृद्धि में मदद मिली है। राजस्थान और गुजरात के अधिकांश जिलों में जीरा की फसल अंकुरण की अवस्था में है और इस अवस्था में कम तापमान हमेशा फसल के लिए सहायक होता है। ऑफ सीजन के कारण आपूर्ति कम रहने की संभावना है जिससे कीमतों में गिरावट पर रोक लगेगी। स्टॉकिस्ट अभी भी आशावादी हैं और कीमतों में वृद्धि की उम्मीद में जमाखोरी कर रहे हैं। हो रही है। नवंबर, 22 में अब तक जीरा की कुल आवक 8.3 हजार टन दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 18.3 हजार टन की आवक हुई थी। जीरा (दिसंबर) वायदा कीमतों में 23000 के सपोर्ट के साथ 24500 के रेजिस्टेंस स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

धनिया (दिसंबर) वायदा की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज व्यापार करने की उम्मीद है। बाजार की नजर पूरे भारत में चल रही बुवाई की प्रगति के संकेतों पर रहने की संभावना है। मौसम अनुकूल होने के कारण अब तक बुवाई की प्रगति सामान्य रही है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने के कारण कुल रकबे में सुधार की उम्मीद है। बढ़ते आयात के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है जो खरीदारों को थोक खरीद से दूर रखे हुए है। धनिया की कीमतों के अभी भी सामान्य भाव से अधिक होने के कारण छोटे कारोबारी थोक खरीदारी से दूर है, जब तक कि कीमतें अपना सामान्य व्यवहार नहीं दिखाती हैं। धनिया की कीमतों कीमतों के 9600-10400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

भौतिक बाजार में सामान्य से कम आपूर्ति के कारण कॉटन वायदा (दिसंबर) की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कीमतें बढ़ने की उम्मीद में किसान अपनी उपज बाजार में जारी करने से हिचक रहे हैं। नवंबर में कपास की आवक आमतौर पर एक दिन में 1.5 लाख गांठ से अधिक हो जाती है। वर्तमान में यह 1.15 लाख से 1.3 लाख गांठ प्रतिदिन है। मुख्य रूप से देरी से फसल काटाई के कारण आवक कम हुई है। आर्थिक मंदी, जिसने दुनिया भर में कपड़े की मांग को प्रभावित किया, के बीच सूती धागे की मांग कम रही है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले वर्ष के 43 लाख गांठों की तुलना में वर्ष 2022-23 में कपास का निर्यात घटकर 30 लाख गांठ रहने की संभावना है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष के 318 लाख गांठों की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए अपने मांग अनुमान को घटाकर 300.00 लाख गांठ कर दिया है। आने वाले सप्ताह में कीमतों के 30000-33000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

घरेलू बाजार में खरीददारी बढ़ने से कॉटनसीडऑयल केक (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। कॉटन सीडऑयल केक के कम उत्पादन के कारण स्टॉकिस्ट सक्रिय हैं जबकि कपास की आवक धीमी रही है। अन्य ऑयल केक की कीमतों में मजबूती और स्थानीय बाजार में बढ़ी हुई मांग से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। कीमतों के 2600 के स्तर पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले सप्ताह में यह 3100 की ओर बढ़ सकती है।

ग्वारसीड (दिसंबर) वायदा में साइडवेज कारोबार करने की संभावना है जबकि उच्च स्तर पर मुनाफावसूली हो सकती है। नवंबर 22 में 6390 के उच्च स्तर को छूने के बाद मुख्य रूप से मुनाफावसूली के कारण ग्वारसीड की कीमतों में गिरावट हो रही है। कीमतों में आगे भी गिरावट के डर से आवक बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि किसानों को उनकी उपज पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 14 लाख टन ग्वारसीड उत्पादन का अनुमान लगाया है जो उद्योग के 7-8 लाख टन के अनुमान से बहुत अधिक है। ग्वारसीड की कीमतों के 5700-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मेंथा ऑयल (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ मिला-जुला कारोबार होने की संभावना है। मेंथा ऑयल में कीमतों में रिकवरी की उम्मीद है क्योंकि कीमतें 940 के सपोर्ट के करीब कारोबार कर रही हैं। मेंथा ऑयल के कम उत्पादन और निचले स्तर पर खरीददारी के कारण कीमतों में गिरावट पर रोक सकती है। कीमतों को 940 का समर्थन रहने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 1010 तक बढ़ सकती है।

हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण अरंडी वायदा (दिसंबर) की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की संभावना है। कम उत्पादन अनुमान और पाइपलाइन में कम स्टॉक कारोबारियों को कैस्टर सीड में लांग पोजीशन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। आने वाले समय में अरंडी की कीमतों को 7200 पर सपोर्ट बने रहने की संभावना है और निकट भविष्य में 7700 के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

### सर्पाफा

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों द्वारा ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी के संकेत के बाद सोने की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट हुई है। फेड द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करना शुरू करने के बाद मार्च के उच्च स्तर से सोने की कीमतों में 15% की गिरावट हुई है, लेकिन नवंबर की शुरुआत से इसकी कीमतों लगभग 8% की वृद्धि हुई है क्योंकि बाजार को दरों में वृद्धि की गति के धीमी होने का अनुमान है। बाजार वर्तमान में फेड की दिसंबर की बैठक में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का 87% अनुमान लगा रहा है। इसलिए, फेड से स्पष्ट निर्देश मिलने तक सोने की कीमतों में अस्थिरता रह सकती है। लेकिन जुलियन को मुद्रास्फीति के मुकाबले बचाव माना जाता है, क्योंकि उच्च ब्याज दरें होल्डिंग की अवसर लागत को बढ़ाती हैं। संस्थागत निवेशक सावधान हैं और सोने की कीमतों में आगे बढ़त भ्रम हो सकती है। भौतिक मोर्चे पर, चीन में सोने के प्रीमियम में तेजी से गिरावट हुई क्योंकि शीर्ष उपभोक्ता में खरीददारी धीमी हो गई। लेकिन फेड अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणी और मजबूत खुदरा बिक्री से मुद्रास्फीति के कम होने के संकेतों पर विराम लगने के कारण अमेरिकी मुद्रा अभी भी एक महीने में सबसे अच्छी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुई। मंदी के बढ़ते जोखिमों, अभी भी चल रहे यूक्रेन युद्ध से सोने की कीमतों को समर्थन मिलना जारी है। तकनीकी मोर्चे पर, कोमेक्स पर सोने की कीमतों को 1790 डॉलर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, और जब तक कीमतें इस स्तर से नीचे बनी रहती हैं तब तक सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है, जबकि अल्पावधि कीमतों को 1710 डॉलर के करीब सपोर्ट है। दूसरी ओर, कोमेक्स पर चांदी की कीमतों को 22,700 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, और संभवतः 19,800 डॉलर के पास सपोर्ट मिल सकता है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और कीमतें 50500-53200 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी में भी भारी अस्थिरता देखी जा सकती है। चांदी उच्च अस्थिरता के साथ 58000-64000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

जी 7 देशों के समूह द्वारा रूसी तेल पर मौजूदा बाजार स्तर से अधिक मूल्य-सीमा तय करने की चर्चा और संयुक्त राज्य अमेरिका में गैसोलीन के भंडार के अनुमान से अधिक होने के कारण तेल की कीमतें 3% से अधिक लुढ़क गईं। एनर्जी इनफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, अमेरिकी गैसोलीन स्टॉक 3.1 मिलियन बैरल बढ़कर 383,000 बैरल से अधिक हो गया। कीमतों में इस कारण भी गिरावट हुई कि जी-7 राष्ट्र रूसी तेल पर मौजूदा बाजार कीमतों से अधिक मूल्य सीमा लगाने पर विचार कर रहे हैं। एक यूरोपीय अधिकारी के अनुसार, जी-7 रूसी समुद्री तेल पर 65-70 डॉलर/बैरल की सीमा लगाने पर विचार कर रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ की सरकारें अभी तक इस मामले पर एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हुई हैं। रिफिनिटिव आंकड़ों के अनुसार उत्तर-पश्चिम यूरोप को दिया जाने वाला यूराल कच्चा तेल 62-63 डॉलर/बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जो भूमध्यसागर में 67-68 डॉलर/बैरल के आसपास से अधिक है। उत्पादन लागत के लगभग +20 प्रति बैरल होने का अनुमान के आधार पर अभी भी रूस के लिए अपना तेल बेचना लाभदायक बना देगा और इस तरह वैश्विक बाजार में आपूर्ति की कमी नहीं होगी। अगले वर्ष वैश्विक आर्थिक विस्तार में गिरावट की आशंका वाले आईसीडी के आर्थिक दृष्टिकोण से कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है जहां कीमतों को 6100 के पास सपोर्ट और 6800 के पास रेजिस्टेंस रह सकता है। सामान्य से कम तापमान की भविष्यवाणी के बीच हीटिंग की मांग में बढ़ोतरी के बीच संभावित रेल हड़ताल की चिंता के कारण नेचुरल गैस वायदा तीन महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस सप्ताह में कीमतों में गिरावट पर खरीददारी की जा सकती है। कीमतों को 520 के पास सपोर्ट और 630 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।



## बेस मेटल

कमजोर डॉलर के कारण बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती है। डॉलर तीन महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में अमेरिकी ब्याज दर को धीमा करने की संभावना निवेशकों के दिमाग पर हावी हो गई और चीन में जारी कोविड-19 के प्रकोप से काउंटर पर दबाव पड़ सकता है। तांबे की कीमतें 660-695 के दायरे में कारोबार कर सकती है। पिछले कुछ महीनों में तांबे के भंडार के खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच जाने के कारण, आने वाले कुछ दिनों में तांबे की कीमतें अधिक बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई उद्योगों में तांबे की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है। माइजर फ्रीपोर्ट-मैकमोरन ने 2023 में चीनी स्मेल्टरो के साथ तांबे के कंसेन्ट्रेट की आपूर्ति के लिए 88 डॉलर प्रति टन और 8.8 सेंट प्रति पाउंड के टीसी/आरसी पर सहमति व्यक्त की है। तांबे के कंसेन्ट्रेट की अपेक्षित अधिक सप्लाई के कारण ये शुल्क 2017 के बाद से सबसे अधिक हैं और 2022 के बेंचमार्क की तुलना में 35% अधिक हैं। जिंक की कीमतें 250-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लैड की कीमतें 177-189 के दायरे में कारोबार कर सकती है। अनुमान से कमजोर वृद्धि और चीन में मंदी, यूरोजोन में उभरती मंदी और स्टॉक आंकड़ों के आधार पर बाजार में अधिक आपूर्ति के साक्ष्य के कारण एल्युमीनियम की कीमतें मंदी के रुझान के साथ 197-215 के दायरे में कारोबार कर सकती है। परिवहन, निर्माण और पैकेजिंग क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमीनियम की मांग चीन की सख्त कोविड पाबंदियों के कारण कमजोर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन साल दर साल 3.1% बढ़कर 5.85 मिलियन टन हो गया। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉग (दिसंबर) बायदा की कीमतों में 41900 तक गिरावट की संभावना है। दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन के कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट देखी गई है।

## रूसी तेल पर मूल्य सीमा ... 'दुविधा की स्थिति'

रूस के खिलाफ सबसे बड़े ऊर्जा हथियार के रूप में तेल की कीमतों की सीमा तय करने का विचार सबसे पहले इस साल की शुरुआत में इटली के पीएम मारियो द्राघी द्वारा पेश किया गया था। बाद में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन द्वारा यूरोपीय संघ के साथ इस पर विचार-विमर्श किया गया कि मास्को को कैसे दंडित किया जाए। अब, इसे जी-7 द्वारा अपनाया गया है।

आजकल, यूरोपीय संघ और जी-7 दोनों एक अजीब विसंगति से जूझ रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन समर्थक सहयोगियों द्वारा लंबे समय से चले आ रहे रूसी तेल की एक निश्चित कीमत तय करने के लिए हो रही वार्ता को 23 नवंबर, 2022 को तब एक झटका लगा, जब एक निश्चित मूल्य और अन्य विवरणों पर वरिष्ठ यूरोपीय संघ के राजनयिकों की बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई।

5 दिसंबर को शुरू होने वाले रूसी तेल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध में ब्लॉक के बाहर गंतव्यों के लिए रूसी तेल शिपमेंट को जहाज, वित्त या बीमा करने के लिए यूरोपीय सेवाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है, जो रूस के तेल को दुनिया भर में खरीदारों तक ले जाने वाले बुनियादी ढांचे को अक्षम कर देगा।

### 65 और 70 डॉलर की कीमत रूस के लिए कोई समस्या नहीं है

यूरोपीय संघ और जी-7 रूसी कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर और 70 डॉलर प्रति बैरल के बीच रखने पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के कई राजनयिकों ने कहा कि प्रस्तावित स्तर बहुत अधिक था। ये कीमतें यूक्रेन पर आक्रमण से पहले के ऐतिहासिक औसत के बराबर हैं।

कीमतों के इस दायरे, जिसे जी-7 द्वारा संचालित किया जा रहा है, के दो उद्देश्य हैं: वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचने के लिए रूसी तेल का प्रवाह बनाए रखना, जबकि साथ ही मास्को को राजस्व को सीमित करना।

65-70 डॉलर की सीमा रूस की उत्पादन लागत से काफी अधिक है और कुछ देशों द्वारा प्रस्तावित सीमा से अधिक है। जैसा कि रूस पहले से ही अपने कच्चे तेल को छूट पर बेच रहा है, इसलिए कीमतों की अधिक सीमा तय करने से उसके व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव पड़ सकता है। रूसी तेल के बेंचमार्क, जिसे यूराल मिश्रण के रूप में जाना जाता है, की कीमतों ने महामारी से पहले के वर्ष में 60 और 70 डॉलर प्रति बैरल के बीच कारोबार किया। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तुरंत बाद यह 100 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गया था, लेकिन पिछले तीन महीनों में 65 डॉलर और 75 डॉलर प्रति बैरल के बीच कारोबार कर रहा है, और इस दायरे को ही जी-7 द्वारा निर्धारित करने पर विचार हो रहा है, और इससे रूस को बहुत नुकसान नहीं होगा।

### कीमतों के निश्चित दायरे से संबंधित अन्य प्रस्ताव

कीमतों की सीमा रूसी तेल को दुनिया में कहीं भी ले जाने वाली कंपनियों को शिपिंग और सेवाओं, जैसे कि बीमा, दलाली और वित्तीय सहायता प्रदान करने से प्रतिबंधित कर देगी, जब तक कि तेल निर्धारित सीमा से नीचे नहीं बेचा जाता।

नवीनतम प्रस्ताव के तहत कई चीजे आसान कर दी गई हैं जो यूरो ब्लॉक के सबसे नवीनतम प्रतिबंध पैकेज में रखे गए थे, जिनमें वे प्रतिबंध भी शामिल हैं जिसके तहत जहाजों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा सकते थे जो रूसी तेल को तय मूल्य सीमा से ऊपर ले जाते थे। उन जहाजों पर जुर्माना अब 90 दिन की अवधि तक सीमित होगा और केवल रूसी तेल पर लागू होगा।

यूरोपीय संघ ने मूल्य-सीमा कानून के अपने नवीनतम संस्करण में कई छूट अवधि जोड़ने का भी प्रस्ताव किया है और शिपिंग प्रावधानों पर दंड को काफी कम कर दिया है।



स्रोत: रॉयटर

### समझौता अभी दूर की कौड़ी है

यूरोपीय संघ के कुछ राजनयिकों, विशेष रूप से पोलैंड और अन्य कट्टर यूक्रेन सहयोगियों, ने कहा है कि जी 7 द्वारा प्रस्तावित मूल्य सीमा बहुत अधिक है और रूसी राजस्व को चोट पहुंचाने के लिए सीमा को बहुत कम निर्धारित किया जाना चाहिए।

ग्रीस, साइप्रस और माल्टा, जिनका अपने बड़े समुद्री उद्योगों के कारण गहरे सरोकार है, ने मूल्य-सीमा का अभी भी अधिक करने की मांग की और कुछ ने अपने समुद्री व्यवसायों के लिए आय के संभावित नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की।

सभी भू-राजनीतिक तनावों और चीन में मंदी के बीच तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रहेगी। मंदी की बात अब इसे निचले स्तर पर रख रही है लेकिन मामूली गिरावट के बाद खरीदारी वापस आ सकती है।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रायिकताओं की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्यूरिटीज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौधों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।